

रोल नं.  
Roll No.

--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **12** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **30** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains **12** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **30** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

## रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

### **CHEMISTRY (Theory)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

*Time allowed : 3 hours*

अधिकतम अंक : 70

*Maximum Marks : 70*

## सामान्य निर्देशः

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-संख्या **1** से **8** तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **1** अंक है।
- (iii) प्रश्न-संख्या **9** से **18** तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **2** अंक हैं।
- (iv) प्रश्न-संख्या **19** से **27** तक भी लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **3** अंक हैं।
- (v) प्रश्न-संख्या **28** से **30** तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **5** अंक हैं।
- (vi) आवश्यकतानुसार लॉग टेबलों का प्रयोग करें। कैल्कुलेटरों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

## General Instructions :

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Questions number **1** to **8** are very short-answer questions and carry **1** mark each.
- (iii) Questions number **9** to **18** are short-answer questions and carry **2** marks each.
- (iv) Questions number **19** to **27** are also short-answer questions and carry **3** marks each.
- (v) Questions number **28** to **30** are long-answer questions and carry **5** marks each.
- (vi) Use Log Tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.

1. ‘प्रतिलोहचुम्बकत्व’ का क्या तात्पर्य है ?

1

What is meant by ‘antiferromagnetism’ ?

2. अपोहन (डायलिसिस) को परिभाषित कीजिए।

1

Define dialysis.

3. इसके अयस्क से ऐलुमिनियम निष्कर्षण धातुकर्म में  $\text{CO}_2$  की क्या भूमिका होती है ? 1

What is the role of  $\text{CO}_2$  in the extractive metallurgy of aluminium from its ore ?


4. नाइट्रोजन गैस बहुत निष्क्रिय क्यों है ? 1

Why is nitrogen gas very unreactive ?


5. प्रोपैन-2-ओन और पेंटैन-3-ओन के बीच अंतर करने के लिए एक जाँच लिखिए । 1

Give a test to distinguish between propan-2-one and pentan-3-one.

6. उस ऐल्कोहॉल का नाम लिखिए जिसका निम्न एस्टर को बनाने में उपयोग किया जाता है : 1



Name the alcohol that is used to make the following ester :



7. 'ऐप्टाइड लिंकेज' को परिभाषित कीजिए । 1

Define a 'Peptide linkage'.

8. 'होमोपॉलीमर', 'कोपॉलीमर' से कैसे भिन्न होता है ? 1

How does a homopolymer differ from a copolymer ?

9. एक विद्युत-अपघट्य के विलयन के लिए चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए । तापमान में परिवर्तन के साथ उनके विचरण की चर्चा कीजिए । 2

Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with change in temperature.

10. निम्नलिखित प्रत्येक को परिभाषित कीजिए :

- (i) विशिष्ट अभिक्रिया दर
- (ii) अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा

Define each of the following :

- (i) Specific rate of a reaction
- (ii) Energy of activation of a reaction

11. निम्न प्रक्रमों में प्रत्येक के आधारमूल सिद्धान्त का वर्णन कीजिए :

2

- (i) NaCN विलयन के साथ सिल्वर अयस्क को निकालित करने से प्राप्त हुए विलयन से सिल्वर की पुनःप्राप्ति
- (ii) एक अशुद्ध धातु का विद्युत्-अपघटनी परिष्करण

### अथवा

निम्न प्रक्रमों में प्रत्येक के पीछे जो कार्यकारी सिद्धान्त है उसका वर्णन कीजिए :

2

- (i) धातु का ज़ोन (मंडल) परिष्करण
- (ii) धातुओं की वाष्प प्रावस्था का परिष्करण

Describe the underlying principle of each of the following processes :

- (i) Recovery of silver from the solution obtained by leaching silver ore with a solution of NaCN
- (ii) Electrolytic refining of a crude metal



### OR

Describe the principle involved in each of the following processes :



- (i) Zone refining of a metal
- (ii) Vapour phase refining of metals

12. निम्न रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों को पूर्ण करके लिखिए :

2



Complete the following chemical reaction equations :



**13.** निम्नलिखित के कारण लिखिए :

- (i) कॉपर(I) आयन का जलीय विलयनों में होना नहीं जाना जाता है।
- (ii)  $O_2$  और  $F_2$  दोनों ही संक्रमण धातुओं की उच्च उपचयन अवस्थाओं को स्थिरता देती हैं परन्तु उच्च उपचयन अवस्था को स्थिरता देने में ऑक्सीजन की क्षमता फ्लूओरीन से अधिक होती है।

Assign reasons for the following :

- (i) Copper(I) ion is not known to exist in aqueous solutions.
- (ii) Both  $O_2$  and  $F_2$  stabilize high oxidation states of transition metals but the ability of oxygen to do so exceeds that of fluorine.


**14.** निम्न आर्गेनिक हैलोजन यौगिकों की संरचनाएँ लिखिए : 2

- (i) 4-टर्ट-ब्यूटिल-3-आयडोहेप्टेन
- (ii) 4-ब्रोमो-3-मेथिलपेंट-2-इन


Write the structures of the following organic halogen compounds :

- (i) 4-tert-Butyl-3-iodoheptane
- (ii) 4-Bromo-3-methylpent-2-ene


**15.** (i) निम्न यौगिकों को क्षारक सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :




(ii) निम्न यौगिकों को  $pK_b$  मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



(i) Arrange the following compounds in an increasing order of basic strength :



(ii) Arrange the following compounds in a decreasing order of  $pK_b$  values :



**16.** उभयकारणी नाभिकस्नेही (ऐम्बिडेण्ट न्यूक्लिओफाइल्स) क्या होते हैं ? एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए । 2

What are ambident nucleophiles ? Explain with an example.

**17.** निम्न बहुलकों को प्राप्त करने के लिए जो एकलक उपयोग में लाए जाते हैं उनकी संरचनाएँ लिखिए : 2

- (i) बूना-S
- (ii) नाइलॉन-6, 6

Write the names and structures of monomers used for getting the following polymers :

- (i) Buna-S
- (ii) Nylon-6, 6

**18.** यौगिकों के निम्न युग्मों के बीच अंतर करने के लिए एक-एक रासायनिक जाँच दीजिए : 2

- (i) एथिलऐमीन और ऐनिलीन
- (ii) ऐनिलीन और बेन्जिलऐमीन

Give a chemical test to distinguish between each of the following pairs of compounds :

- (i) Ethylamine and Aniline
- (ii) Aniline and Benzylamine

**19.** दो भिन्न-भिन्न तापमानों पर विघटन अभिक्रिया के लिए  $k$  के मान नीचे दिए गए हैं :

$$k_1 = 2 \cdot 15 \times 10^{-8} \text{ L/(mol.s)}, \text{ at } 650 \text{ K}$$

$$k_2 = 2 \cdot 39 \times 10^{-7} \text{ L/(mol.s)}, \text{ at } 700 \text{ K}$$

अभिक्रिया के लिए  $E_a$  का मान परिकलित कीजिए ।

$$(\log 11 \cdot 11 = 1 \cdot 046) \quad (R = 8 \cdot 314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$
3

For a decomposition reaction, the values of  $k$  at two different temperatures are given below :

$$k_1 = 2 \cdot 15 \times 10^{-8} \text{ L/(mol.s)} \text{ at } 650 \text{ K}$$

$$k_2 = 2 \cdot 39 \times 10^{-7} \text{ L/(mol.s)} \text{ at } 700 \text{ K}$$

Calculate the value of  $E_a$  for the reaction.

$$(\log 11 \cdot 11 = 1 \cdot 046) \quad (R = 8 \cdot 314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

- 20.**  $286\cdot65 \text{ pm}$  किनारे (सेल) के विस्तार के साथ आयरन का काय के है। आयरन का घनत्व  $7\cdot874 \text{ g cm}^{-3}$  है। इस सूचना का उपयोग करते हुए ऐवोगैट्रो संख्या का परिकलन कीजिए। (Fe का ग्राम परमाणिक द्रव्यमान =  $55\cdot84 \text{ g mol}^{-1}$ ) 3

Iron has a body centred cubic unit cell with a cell dimension of  $286\cdot65 \text{ pm}$ . The density of iron is  $7\cdot874 \text{ g cm}^{-3}$ . Use this information to calculate Avogadro's number (Gram atomic mass of Fe =  $55\cdot84 \text{ g mol}^{-1}$ ).

- 21.**  $25^\circ \text{ C}$  पर  $0\cdot01 \text{ M NaCl}$  विलयन का प्रतिरोध  $200 \Omega$  है। प्रयुक्त चालकता-सेल का सेल स्थिरांक एक है। विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 3

The resistance of  $0\cdot01 \text{ M NaCl}$  solution at  $25^\circ \text{ C}$  is  $200 \Omega$ . The cell constant of the conductivity cell used is unity. Calculate the molar conductivity of the solution.

- 22.** उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए कि अधिशोषण के दो प्रकार के प्रक्रम (भौतिक व रासायनिक अधिशोषण) किस प्रकार तापमान, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सक्रियण ऊर्जा के मान से प्रभावित होते हैं ? 3

### अथवा

स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए कि अधिशोषण की परिघटना निम्न में कैसे अनुप्रयोग पाती है : 3

- (i) एक बर्तन में निर्वात पैदा करने में
- (ii) विषमांगी उत्प्रेरण में
- (iii) धातुकर्म में फेन प्लबन प्रक्रम में

Giving appropriate examples, explain how the two types of processes of adsorption (physisorption and chemisorption) are influenced by the prevailing temperature, the surface area of adsorbent and the activation energy of the process ?

### OR

Explain clearly how the phenomenon of adsorption finds application in

- (i) production of vacuum in a vessel
- (ii) heterogeneous catalysis
- (iii) froth floatation process in metallurgy

**23.** निम्नलिखित के कारण बतलाइए :

- (i) Cu(I) आयन का जलीय विलयनों में होना नहीं जाना जाता है।
- (ii) क्षार (ऐल्कैली) धातुओं की अपेक्षा संक्रमण धातुएँ अधिक कठोर होती हैं।
- (iii) तत्व प्रति तत्व ऐक्टिनोयड संकुचन, लैन्थैनोयड संकुचन से अपेक्षाकृत अधिक होता है।

Assign reasons for the following :

- (i) Cu(I) ion is not known to exist in aqueous solutions.
- (ii) Transition metals are much harder than the alkali metals.
- (iii) From element to element actinoid contraction is greater than the lanthanoid contraction.

**24.** निम्नलिखित प्रत्येक अवस्था में एक उदाहरण के साथ उपसहसंयोजन यौगिकों की भूमिका की संक्षेप में चर्चा कीजिए : 3

- (i) धातुओं के निष्कर्षण धातुकर्म में
- (ii) विश्लेषणात्मक रसायन में

Giving one example in each of the following cases, discuss briefly the role of coordination compounds in

- (i) extraction metallurgy of metals
- (ii) analytical chemistry

**25.** आवश्यक और अनावश्यक ऐमीनो अम्ल क्या होते हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए। 3

What are essential and non-essential amino acids ? Give two examples of each.

**26.** प्रत्येक के लिए एक-एक उदाहरण के साथ निम्न की व्याख्या कीजिए :

- (i) कोल्बे की अभिक्रिया
- (ii) रीमर-टीमान अभिक्रिया
- (iii) विलियम्सन ईथर संश्लेषण

Explain the following with an example for each :

- (i) Kolbe's reaction
- (ii) Reimer-Tiemann reaction
- (iii) Williamson ether synthesis

**27.** निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

- (i) डॉक्टर के परामर्श के बिना औषधियों को क्यों नहीं लेना चाहिए ?
- (ii) 'ब्रॉड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्स' का क्या तात्पर्य होता है ?
- (iii) डिटॉल (Dettol) के मुख्य घटक क्या हैं ?

Answer the following questions :

- (i) Why should medicines not be taken without consulting a doctor ?
- (ii) What is meant by 'broad spectrum antibiotics' ?
- (iii) What are the main constituents of Dettol ?

**28.** (a) निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :

- (i)  $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
- (ii)  $\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$

(b) निम्न रूपांतरणों का वर्णन आप दो चरणों से अधिक नहीं में कैसे करेंगे :

- (i) एथैनॉल को 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटैनैल में
- (ii) बेन्जोइक अम्ल को m-नाइट्रोबेन्जिल ऐल्कोहॉल में
- (iii) प्रोपैनोन को प्रोपीन में

2, 3

### अथवा

(a) निम्न यौगिकों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :

- (i) 4-क्लोरोपेंटैन-2-ओन
- (ii) p-नाइट्रोप्रोपिओफिनोन

(b) यौगिकों के निम्न युग्मों में भिन्नता करने के लिए जाँचों को दीजिए :

- (i) एथैनैल और प्रोपैनैल में
- (ii) फीनॉल और बेन्जोइक अम्ल में
- (iii) बेन्जैलिडहाइड और ऐसीटोफिनोन में

2, 3

- (a) Write the IUPAC names of the following compounds
- $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
  - $\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$
- (b) Describe the following conversions in not more than two steps :
- Ethanol to 3-Hydroxybutanal
  - Benzoic acid to m-Nitrobenzyl alcohol
  - Propanone to Propene

### OR

- (a) Draw the structures of the following compounds :
- 4-Chloropentan-2-one
  - p-Nitropropiophenone
- (b) Give tests to distinguish between the following pairs of compounds :
- Ethanal and Propanal
  - Phenol and Benzoic acid
  - Benzaldehyde and Acetophenone
- 29.** (a) वैष्ट हॉफ कारक क्या होता है ? इसके मान किस प्रकार के होते हैं यदि विलयन के बनने में विलेय के अणु
- विघटित होते हैं ?
  - संगठित होते हैं ?
- (b)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  और  $\text{NaHCO}_3$  के 1 g मिश्रण में दोनों पदार्थों की समान मोलर मात्राएँ मिली हुई हैं। इस मिश्रण के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए 0.1 M HCl विलयन के कितने mL की आवश्यकता होगी ?  
2, 3  
(मोलर द्रव्यमान :  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g}$ ,  $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}$ )

### अथवा

- (a) परिभाषा लिखिए :
- मोल प्रभांश
  - मोललता
  - राउल्ट का नियम

- (b) पूर्ण रूप से वियोजित मानते हुए, उस विलयन का प्रत्याशित ग्लॉबर लवण (सज्जी),  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$  के 6.00 g को घुलाने से बनाया गया हो ।  
 (जल के लिए  $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ , परमाणु द्रव्यमान : Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1) 3, 2

- (a) What is van't Hoff factor ? What types of values can it have if in forming the solution the solute molecules undergo  
 (i) Dissociation ?  
 (ii) Association ?
- (b) How many mL of a 0.1 M HCl solution are required to react completely with 1 g of a mixture of  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  and  $\text{NaHCO}_3$  containing equimolar amounts of both ?  
 (Molar mass :  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g}$ ,  $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}$ )

**OR**

- (a) Define  
 (i) Mole fraction  
 (ii) Molality  
 (iii) Raoult's law
- (b) Assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution prepared by dissolving 6.00 g of Glauber's salt,  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$  in 0.100 kg of water.  
 ( $K_f$  for water = 1.86 K kg mol<sup>-1</sup>, Atomic masses : Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1)

- 30.** (a) उस उत्कृष्ट गैस स्पीशीज का सूत्र लिखिए और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए जो निम्न के साथ समसंरचनात्मक हो :

- (i)  $\text{IBr}_2^-$   
 (ii)  $\text{BrO}_3^-$

- (b) निम्न के कारण लिखिए :  
 (i)  $\text{SF}_6$  गतिकतः निष्क्रिय होता है ।  
 (ii)  $\text{NF}_3$  एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है जबकि  $\text{NCl}_3$  ऐसा नहीं है ।  
 (iii) HF की अपेक्षा HCl प्रबलतर अम्ल है यद्यपि फ्लुओरीन क्लोरीन की अपेक्षा अधिक विद्युत्-ऋणात्मक है । 2, 3

**अथवा**

- (a) बड़े पैमाने पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है ? उस प्रक्रम का प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए ।
- (b) निम्न के लिए कारण लिखिए :
- $H_2O$  की अपेक्षा  $H_2S$  अधिक अम्लीय है ।
  - $PH_3$  की अपेक्षा  $NH_3$  अधिक क्षारीय है ।
  - ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर में शृंखलन की प्रवृत्ति अधिक है ।
- 2, 3
- (a) Write the formula and describe the structure of a noble gas species which is isostructural with
- $IBr_2^-$
  - $BrO_3^-$
- (b) Assign reasons for the following :
- $SF_6$  is kinetically inert.
  - $NF_3$  is an exothermic compound whereas  $NCl_3$  is not.
  - $HCl$  is a stronger acid than  $HF$  though fluorine is more electronegative than chlorine.

## OR

- (a) How is ammonia prepared on a large scale ? Name the process and mention the optimum conditions for the production of ammonia by this process.
- (b) Assign reasons for the following :
- $H_2S$  is more acidic than  $H_2O$ .
  - $NH_3$  is more basic than  $PH_3$ .
  - Sulphur has a greater tendency for catenation than oxygen.